



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 7, 2005/पौष 17, 1926

No. 24]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 7, 2005/PAUSA 17, 1926

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 जनवरी, 2005

का.आ. 35(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, जे.एल.एन. मार्ग, मालवीया नगर, जयपुर-302017 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 9 जनवरी, 2005 को प्रारम्भ होने वाली और 8 जनवरी, 2006 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएं के अध्वधीन प्रदान करता है :—

- एक्सचेंज केवल निपटान गारंटी निधि/व्यापार गारंटी निधि की स्थापना के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से अंतिम अनुमोदन अभिप्राय करने के पश्चात् ही व्यापार प्रारंभ करेगा।
- एक्सचेंज आगे बिना कोई विलंब किए विनिधानकर्ता सेवा निधि का गठन करेगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/30019/04]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th January, 2005

S.O. 35(E).—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by The Jaipur Stock Exchange Limited having its registered office at Stock Exchange Building, JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur-302017 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise

of the powers conferred by Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 9th day of January, 2005 and ending on the 8th day of January, 2006 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter :—

- The exchange shall commence trading only after obtaining final approval from the Securities and Exchange Board of India for establishment of the Settlement Guarantee Fund/Trade Guarantee Fund.
- The Exchange shall set up an Investor Service Fund without any further delay.

[F. No. SEBI/LE/30019/04]

G. N. BAJPAI, Chairman